

शैक्षिक सत्र-2026-27
(21) ट्रेड—एकाउन्टेन्सी एवं अंकक्षण
कक्षा-11

पाठ्यक्रम की उपयोगिता—

एकाउन्टेन्सी ग्रुप का अध्ययन करने के बाद छात्र निम्न प्रकार के रोजगार प्राप्त कर सकता है।
लेखा लिपिक, पुस्तकालय, रोकड़िया, रोकड़ लिपिकि, कैश काउन्टर लिपिक, लागत लिपिक और अंकक्षण लिपिक।

उद्देश्य—

बहीखाता तथा लेखाशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान प्रदान करने, व्यापारिक निर्माणों तथा सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में रखी जाने वाली पुस्तकों तथा उनके सम्बन्ध में ज्ञान प्रदान करना तथा व्यवहारिक तथा निर्माण कार्य में लगे हुये संगठनों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्रों, लेखों तथा विशेष रूप से अन्तिम खातों तथा विवरणी के तैयार किये जाने के विषय में व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही यह प्रबन्धकों की कमी लाभ तथा परिणामों को ज्ञात करने की विशेष कुशलता प्रदान करता है। इसी लिये परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एक गहन प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। पुस्तकपालन तथा लेखा कर्म की पद्धति अंग्रेजी पद्धति, जैसे-बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य संगठनों में रखी जाती है, से ही होगी।

पाठ्यक्रम—

इस ट्रेड में तीन-तीन घण्टे के पांच प्रश्न-पत्र और प्रयोगात्मक परीक्षा भी होगी। अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :

	पूर्णांक		उत्तीर्णांक
(क) सैद्धान्तिक—			
प्रथम प्रश्न-पत्र	60	}	20
द्वितीय प्रश्न-पत्र	60		20
तृतीय प्रश्न-पत्र	60		20
चतुर्थ प्रश्न-पत्र	60		20
पंचम प्रश्न-पत्र	60		20
(ख) प्रयोगात्मक—	400		200
		300	100

टीप—परीक्षार्थियों को प्रत्येक लिखित प्रश्न-पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक 20 तथा योग में 33 प्रतिशत अंक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा 50 प्रतिशत उत्तीर्णांक पाना आवश्यक है।

प्रथम प्रश्न-पत्र

बहीखाता तथा लेखाशास्त्र—I

अधिकतम—60 अंक
न्यूनतम—20 अंक

- 1—लेखांकन सिद्धान्त—प्रत्यय तथा अवधारणा, दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धान्त। 10
- 2—प्रारम्भिक लेखा की पुस्तकें तथा खाता-बही खाता-बहियों में खतौनी की विधि—I तलपट तैयार करना त्रुटियाँ और उनका सुधार। 10
- 3—रोकड़-पुस्तक—चेक सम्बन्धी लेखे, बैंक समाधान विवरण 10
- 4—विनिमय विपत्र सम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान तथा सम्बन्धी लेखे। 10
- 5—अन्तिम खातों को तैयार करना—समायोजनाओं सहित व्यापार एवं लाभ-हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करना। 20

द्वितीय प्रश्न-पत्र

बहीखाते तथा लेखाशास्त्र—II

अधिकतम—60 अंक
न्यूनतम—20 अंक

- 1—पूँजीगत एवं आयगत मदें। 10
- 2—गैर व्यावसायिक संस्थानों के खाते—प्राप्ति तथा भुगतान खाते, आय-व्यय खाते, अन्तिम खाते। 20
- 3—हास परिभाषा—हासित करने की विभिन्न पद्धतियाँ। 20

तृतीय प्रश्न—पत्र
व्यावसायिक एवं कार्यालय संगठन

अधिकतम—60 अंक
न्यूनतम—20 अंक

- | | |
|---|----|
| 1—व्यावहारिक संगठन—अर्थ, उद्देश्य, महत्व। | 10 |
| 2—व्यावसायिक संगठन के प्रारूप—एक व्यवसाय, साझेदारी संगठन, संयुक्त स्कन्ध कम्पनी एवं सहकारी भण्डार, सार्वजनिक उपक्रम | 20 |
| 3—कार्यालय संगठन—अर्थ महत्व एवं कार्य, एक अच्छे संगठन के महत्वपूर्ण तत्व, एक अच्छे कार्यालय के स्थान के चुनाव के मुख्य तत्व। | 10 |
| 4—कार्यालय कार्य—विधि, नस्तीकरण—लेटी एवं खड़ी फाइल, अनुक्रमणिका विज्ञापन एवं विक्रय कल कार्य से सम्बन्धित संक्षिप्त आख्या लेखन। | 20 |

चतुर्थ प्रश्न—पत्र
गणित तथा सांख्यिकी

अधिकतम—60 अंक
न्यूनतम—20 अंक

- | | |
|--|----|
| 1—अंकगणित की मुख्य संक्रियायें—साधारण तथा दशमलव पद्धति (निकटतम मान सहित)। | 10 |
| 2—मापन की विभिन्न इकाइयाँ—क्षेत्रफल धारिता भार आयतन तथा समय। | 10 |
| सांख्यिकीय— | |
| 1—क्षेत्र तथा महत्व। | 10 |
| 2—आँकड़ों का संग्रह। | 10 |
| 3—बारम्बारता बंटन। | 16 |
| 4—सांख्यिकी आँकड़ों का आलेखनीय निरूपण (दण्ड आरेख, वृत्त आरेख, आयत चित्र, चित्रीय विरूपण बारम्बारता बहुभुज, बारम्बारता सम्बन्धी बारम्बारता चक्र)। | 14 |

पंचम प्रश्न—पत्र
अंकेक्षण

अधिकतम—60 अंक
न्यूनतम—20 अंक

- | | |
|--|----|
| 1—अंकेक्षण—परिभाषा, महत्व उद्देश्य—मुख्य एवं गौण उद्देश्य। | 10 |
| 2—अंकेक्षण के प्रकार—सतत् वार्षिक आन्तरिक अंकेक्षण एवं वैधानिक अंकेक्षण। | 10 |
| 3—अंकेक्षण की तैयारी—अंकेक्षण कार्य विधि का निर्धारण, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण नोटबुक, नैत्यक जांच, परीक्षण जाँच। | 10 |
| 4—आन्तरिक अंकेक्षण —अर्थ, उद्देश्य, आन्तरिक अंकेक्षण से तुलना, आन्तरिक अंकेक्षण को कुशल प्रणाली के मूलभूत सिद्धान्त। क्रय, विक्रय, नगद प्राप्ति एवं भुगतान तथा मजदूरी के सम्बन्ध में आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली। | 16 |
| 5—प्रमाणन— अर्थ, उद्देश्य एवं चल-अचल सम्पत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन, दायित्वों का सत्यापन। | 14 |

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम

पूर्णांक—400
न्यूनतम—200

बड़े प्रयोग—

छात्रों को बाउचर प्रदान किये जायें जिनकी सहायता से रोकड़ पुस्तक, खुदरा रोकड़, पुस्तक क्रय, पुस्तक विक्रय, पुस्तक बीजक, विक्रय विवरण एवं चालू खाता तैयार करना, विज्ञापन हेतु प्रपत्र तैयार करना, फार्म सी0 एवं फार्म 31 भरना।

छोटे प्रयोग—

समय एवं श्रम बचाने वाले यन्त्रों की जानकारी एवं प्रयोग, जैसे—कलकुलेटर्स, डैटिंग मशीन, पंचिंग मशीन, चेक राइटिंग मशीन, ऐडिंग मशीन, टाइप रिकार्डर, स्टाप वाच, रेडी रेकनर आदि।

(ग) प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु अंक विभाजन

1—

- (क) दो बड़े प्रयोग (40+40) 80 अंक बड़े प्रयोग की सूची के प्रत्येक खण्ड से दो-दो।
(ख) दो छोटे प्रयोग (20+20) 40 अंक छोटे प्रयोगों की सूची के प्रत्येक खण्ड से दो-दो।
(ग) मौखिकी प्रयोगों की सूची के आधार पर 40 अंक पर।
(घ) प्रैक्टिकल नोट बुक एवं विभिन्न प्रपत्रों 40 अंक का संकलन।

2—

(क) सत्रीय कार्य (100)—

सत्रीय कार्य का विभाजन

उपस्थिति अनुशासन 10 अंक

लिखित कार्य 20 अंक

दो वर्षों में पाँच टेस्ट लिये जायेंगे 50 अंक

मौखिकी 20 अंक

100 अंक

(ख) औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदत्त 100 अंक श्रेणी के आधार पर।

प्रस्तुत पुस्तकें—

क्रमांक	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशन का नाम एवं पता	मूल्य	संस्करण वर्ष
1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री—		रु0	
1	माध्यमिक बही खाता एवं लेखा-प्रपत्र प्रथम	सिंह एवं अग्रवाल	भारत प्रकाशन मन्दिर, मेरठ	30.00	1989-90
2	माध्यमिक बही खाता एवं लेखाशास्त्र-द्वितीय	सिंह एवं अग्रवाल	भारत प्रकाशन मन्दिर, मेरठ	30.00	1989-90
3	बहीखाता एवं लेखाशास्त्र	बी0 एस्0 भट्टाचार्या एवं गोविल	नवजीवन प्रकाशन, मेरठ	05.00	1989-90
4	अंकक्षण	बी0एस्0 भट्टाचार्या एवं गोविल	नवजीवन प्रकाशन, मेरठ	17.00	1989-90
			हिन्दी प्रचारक संस्थान	80.00	1989-90

उपचारात्मक शिक्षण हेतु चार यूनिट टेस्ट निम्नलिखित है—

- (i) प्रथम यूनिट टेस्ट (MCQ आधारित) जुलाई द्वितीय सप्ताह 20 अंक
(10 अंक ग्रीष्मावकाश गृहकार्य + 10 अंक यूनिट टेस्ट)
- (ii) द्वितीय यूनिट टेस्ट (वर्णनात्मक प्रश्न आधारित) अगस्त अन्तिम सप्ताह 20 अंक
- (iii) तृतीय यूनिट टेस्ट (MCQ आधारित) नवम्बर अन्तिम सप्ताह 20 अंक
- (iv) चतुर्थ यूनिट टेस्ट (वर्णनात्मक प्रश्न आधारित) दिसम्बर अन्तिम सप्ताह 20 अंक

नोट— उपरोक्त यूनिट टेस्ट उपचारात्मक शिक्षण के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर लिये जायेंगे। इनके प्राप्तांक परीक्षफल में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।